

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 2

CVG-002

वैदिक गणित में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम

( सी. वी. जी. )

सत्रांत परीक्षा

जून, 2024

सी.वी.जी.-002 : वैदिक अंकगणित

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

---

नोट : इस प्रश्न-पत्र में दो खण्ड हैं। दोनों ही खण्डों से प्रश्नों का चयन कर उत्तर लिखिए।

---

खण्ड-क

1. निम्नलिखित सूत्रों में से किन्हीं चार की उदाहरण सहित

विस्तृत व्याख्या कीजिए :

4×15=60

(क) शून्यं साम्यं समुच्चये

P. T. O.

[ 2 ]

(ख) निखिलं नवतश्चरमं दशतः

(ग) उर्ध्वतिर्यग्भ्याम्

(घ) एकन्यूनेन पूर्वेण

(ङ) एकाधिकेन पूर्वेण

### खण्ड-ख

2. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणियाँ लिखिए :

4×10=40

(क) लौकिक साहित्य में अंकगणितीय परम्परा

(ख) आर्यभट्ट का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व

(ग) ब्रह्मगुप्त का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व

(घ) महावीर आचार्य

(ङ) श्रीपति

(च) वररुचि

CVG-002